



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1982/फाल्गुन 21, 1903
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 1982/PHALGUNA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 13 आईटीसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1982

विषय : ओ.ई.सी.एफ. अधून करार सं. आई.बी.पी. 15 के अधीन
में 1.7 बिलियन (प्रथम राज्य बिजली बोर्ड की लोअर
बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए माल और सेवाओं के
आयात के लिए लाइसेंस शर्तें)

मि. सं. आईपीसी/23(27)/82 से जारी :—प्रथम राज्य बिजली
बोर्ड की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के
लिए ओईसीएफ अधून करार सं. आई.बी.पी. 15 के अधीन 1.7 बिलियन
के माल और सेवाओं के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के
लिए लागू होने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई
हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिलेखित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(मणि नारायणस्वामी)

मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण

प्रति सभी सम्बन्धों को :

आदेश प्राप्ति से ...

1432 GI/81—1

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 13 आईटीसी (पीएन)/82
दिनांक 12 मार्च, 1982 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा
प्रदान किए गए प्रथम राज्य बिजली बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) की लोअर
बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1.7
बिलियन अधून के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में
लाइसेंस शर्तें।

खण्ड I :—समाप्ति शर्तें

(1) ए.एस.ई.बी. की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
की आयात आवश्यकताओं के विस्तार के लिए जापान की विदेशी आर्थिक
सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा प्रदान किया गया 1.7 बिलियन
येन का अधून विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट
के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और
अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती
हैं। ये देश इस अधून के अन्तर्गत प्राप्त होत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मर्चों और उसी मूल्य के लिए
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महाविदेशालय तकनीकी
विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो।
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी) का मूल्य 1.900
बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूप में मूल्य राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
द्वारा अधिलेखित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की

तिथि को प्रचलित कर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या-78 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नामे बालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "आपासी येन अर्थ संख्या आईसी पी-15" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा। ए०एस०ई०बी० को आयात लाइसेंस सेज से समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल ए०एस०ई०बी० के नाम में आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) ए०एस०ई०बी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 1,900 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि उपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि एसईसी द्वारा आवेदन करने पर 31-3-85 तक हो जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) की भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तवापस किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित हों, तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आवेदन अनुबंध-1 में उल्लिखित वेगों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया जाएगा। "पक्के आवेदनों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन नव आवेदनों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नव संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आवेदन और या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू-ई 1 अनुभाग का धीरे धीरे जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आवेदन चार महीनों के भीतर सख्त कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेदन क्यों नहीं दिए जा सकें, इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस को सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। आवेदन देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव

निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त, मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), मार्य बनाव, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे, जिसको वे लाइसेंस धारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पत्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों के संबंध में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने, समस्त रुपया जमा कराने की स्वीकृति प्राप्ति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलवान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलवान वस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किसम की अर्थ सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद—महीने परन्तु अधिक से अधिक—के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।"

पोतलवान के लिए प्राप्ति तिथि निर्दिष्ट करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1985 के बाद की न हो

खण्ड-2. सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिन्दुओं

2(1) ठेके का जहाँ पर्यस्तनिष्क मूल्य येन में (येन के भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए अन्य आवेदन और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेदन केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ए०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निदेश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) बोली लगाने के लिए आमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचित होने वाले कम से कम एक अन्तर्राष्ट्रीय पत्र में विज्ञापित करने पड़ेगे।

(ख) बोली या बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनको इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हूतरेसाहित हो जाएं।

(ग) बोली चुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा उचित न हो वहाँ निम्नलिखित वैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएगी;

(क) जहाँ आयातक के पास विश्वासनीय कारण हो या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहाँ पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहाँ अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या यह कि औपचारिक

खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे इसमें शामिल प्रशासकीय भार से महत्वहीन न हो जाए।

- (घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहाँ निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आयात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिससे जहाँ तक उचित हो पूर्ण संभाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

- (1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।
- (2) औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।
- (3) एक संभरक से सीधा क्रय।

जैसा कि ऋण समझौता सं० आईडीपी-15 दिनांक 15-10-1981 को अनुसूची 5 के पैरा 1(2) में बताया गया है, एएसईबी को सभी सूचनाओं की प्रतियाँ और बोलीकारों के अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टताएँ एवं ड्राईस बोलियों के विश्लेषण की रिपोर्टें, पंचाटों के लिए प्रस्ताव एवं बोली से संबंधित दाय्य सगी वस्तावेज तीन प्रतियों में वित्त मंत्रालय (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए जो उसे पुनरीक्षा के लिए आईसीएफ को भेज देंगे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रय संविदाएँ वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) द्वारा आईसीएफ को केवल तभी अधिसूचित की जाएंगी जब कि उपर्युक्त आवश्यकताएँ पूरी हो गई हों।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1981-82 के लिए ओ०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईडीपी-15 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्योरा नीचे खण्ड-6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा न्यायिक व्यक्ति होंगे जो पात्र स्रोत देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे और जिनका नियंत्रण पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा।

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभरित किया जाने वाला माल—में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क
 संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य $\times 100$

और

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा स्थापित करता हूँ कि—
 पात्र स्रोत देश के नाम में— (कंपनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है”

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मववार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क
 संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य $\times 100$

खण्ड 3. संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली वस्तु

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच एएसईबी की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट आईडीपी-15 (परियोजना सहायता) से संबंधित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईडीपी-15 से संबंधित 15 अक्टूबर 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और वस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन प्रयोजित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में।

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोट परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से भ्रमण कराएगा और पोटनदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोटलदान के पश्चात् आवश्यक ब्योरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होगा चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड 4. विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंस धारी की पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ए०एस०ई०बी० और विदेशी संभरक दोनों द्वारा लिखित हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियाँ जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटों प्रतियाँ संगत बैध आयात लाइसेंस की दो फोटों प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, एएसईबी की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन

क्रेडिट सं० आईसीपी-15 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत विलंबान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) को संविदा वस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड-5. विदेशी संभरकों की भुगतान साखपत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा एसईबी और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद एसईबी की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएएफ कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सीएएफ एसम्बन्धित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र में अनुबन्ध-6 में दिए गए के अनुसार अपरि-वर्तनीय साख पत्र खोलने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा को सम्बोधित अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) में संलग्न प्रपत्र अथवा अनुबन्ध-6 (सेवाओं के लिए) में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगी। अनुबन्ध-6 में दिए गए के अनुसार प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ), भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

6(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी०ए०ए०एफ ए० से प्राधिकारपत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा में संशोधन के लिए या अन्यथा रूप से आवश्यक समझे जाने वाले प्राधिकार पत्र साखपत्रों के ऐसे सभी संशोधन पर स्वतः लागू होंगे।

5(3) माल का पेटलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि का विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र के अन्तर्गत सीदे तय करने के लिए साखपत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंक के प्रभारों के लिए विदेशी संभरक द्वारा किए जाएंगे, उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया जाएगा। विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के भुगतान की तिथि से ओईसीएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की की अवधि के लिए भुदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

खण्ड-8. रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंक को परामर्श जहाजरानी वस्तावेज भेजेगा और बैंक इसके बदले में यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी वस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय

स्टेट बैंक, तीस हजारों दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक होगी जो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46 आईटीसी (पीएन)-76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा—देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आईटीसी (पीएन) 76, दिनांक 12-10-76 के अन्तर्गत संशोधित सार्वजनिक सूचना सं०-74 आईटीसी (पीएन) 74 दिनांक 31-5-1974। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109 आईटीसी (पीएन) 74, दिनांक 3-8-74 और सं०-8 आईटीसी (पीएन)-76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह “के डिपोजिट्स एंड एक्वालिज-843 तबिल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स पर परफेजिज एटस्ट्रा एक्जोड परफेज अन्डर क्रेडिट्स खोन एप्रोसेट” लोन फोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 1.7 बिलियन येन क्रेडिट संख्या आईसीपी-15 फार लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारों, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पीएन) 68, दिनांक 30-8-1968, संख्या 233 आईटीसी (पीएन) 68, दिनांक 24-10-78, संख्या 132 आईटीसी (पीएन) 71, दिनांक 5-10-71, संख्या-74 आई टीसी (पीएन) 74,, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आईटीसी (पीएन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगे जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 103 आईटीसी (पीएन) 76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 132 आईटीसी (पीएन) 71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना संख्या-74 आईटीसी (पीएन) 74, दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “घन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे” में निरूपण रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्योरे निरूपण रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक की भुगतान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एफ ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन वस्तावेजों का संलग्न करते हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एफ ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से प्रवायगी की

सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान वस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए०ए०ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पूष्टांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 8 विशिष्ट व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्टें

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और गेप धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्टें सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०एम० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) विशेष शर्तों को अधिसूचित किए जाने वाले सम्भरक

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने से जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्त" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) संख्या आईडीपी 15 के अधीन सभी आभारों की विदेशी आर्थिक निगम निधि जापान (आईसीएफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों, या आवेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन
3. अनुबन्ध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ०पी०ई०सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिस्र
मोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
बुरुन्डी
कैमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
चाद

कमोरो द्वीप समूह

कांगो, वाहोमे का गणतन्त्र

भूमध्य गिनी (1)

इथोपिया

जाम्बिया

घाना

गिनी

ग्राइवोरी कोस्ट

कीनिया

लेसोथो

लाइबीरिया

मालागासी गणतन्त्र

मालावी

माली

मारिटेनिया मारीशस 2

मुजीम्बिक

नाइजरा

पुर्तगाली गिनी

रियूनियन

रोडेसिया

रवान्डा

सेन्ट हेलिना और जैम (2)

सामोटोम और प्रिन्साइप

सेनेगल

सेबिलिज

सियरा लियोन

सोमालिया

सूडान 1

स्वाजीलैंड

टेरो आफर्न्स और इस्सास

टोगो

युगान्डा

तंजानिया गणतन्त्र संघ

अपर बोल्डा

जाहरे गणतन्त्र

जाम्बिया

3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय बेहुमस

धारवा बोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सल्वाडोर
गुवाडे लोप
ग्वाटे माला
हैती
होन्डुरस
जमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एनाटिलीज
निकारागुवा
पनामा
सेन्ट पियरो और मिके लोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
बेस्ट ईन्डो (शाखा) एनमार्ईई
(क) सहसंबंध राज्य (1)
(ख) भ्रात्रित (2)

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश, फरलेखो पी द्वीप सहित
- (2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेन्शन, ट्रिस्टानडा हन एक्सेसिबिल नाइटिंगेल, ग्राफ
- (3) मुख्य द्वीप समूह, अरूबा, बोनाहरे नयुराकाओं साहा, सैन्ट यूस्टामिड
सैन्ट मार्टिन (दक्षिणी भाग)

4. दक्षिणी अमेरिका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्क द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बहरीन
इजराइल
जोर्डन
केबनान
ओमान
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश

भूटान
बर्मा
भारत
मालदीवीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

बरुनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
साओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाबस द्वीप
फ्रांसीसी बोलिनेशिया (5) 1
मौरू
न्यू कैलेडोनिया
न्यू हेब्रिसिस (बि और क)
नियू
फेलेपिक द्वीप समूह संयुक्त राज्य (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोसोमेन द्वीप समूह (बि)
टोगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समोआ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप समूह: एन्टिगुवा, बार्बिडा, ग्रेनेडा, सेंट क्रिस्ट (सेन्ट केरिस्टोफे) नेविस अंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट क्रिस्टेन्ड
- (2) मुख्य द्वीप समूह:—मोन्तेरात, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह।
- (3) अजमान, बुवई, कुजाहरह, रास अल खेमाह, शारजाह और उम अल क्वैवेन

- (4) भवन और विभिन्न सुलतनत और घसीरात सहित।
- (5) स्पेसिएटी आइसलैंड समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्रेल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बिएर ग्रुप और माकेस द्वीप समूह।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (ग्राम को छोड़कर)

(क-2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
रोमान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कतार
सउदी अरब
ब्राजुघाबी
इण्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

ओ०ई०सी०एफ० द्वारा यथासूचित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिग्रस्त करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन।

1. विज्ञापन :

औपचारिक बोलती अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोलती आमंत्रित करने के लिए आम प्रसारण के कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए।

2. बोलती के दस्तावेज और संविदाएं

2.1. बोलती बाण्ड या गारण्टियां

बोलती बाण्ड या बोलती की गारण्टियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन, इनकी इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि उचित बोलतीकार हतोत्साह हो जाए। बोलती खोलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोलती बाण्ड अथवा गारण्टियां असफल बोलतीकारों को रिहा कर दी जानी चाहिए।

2.2. संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में प्रायातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और साधित्व और यदि प्रायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत उन सामान्य शर्तों के अलावा जिसमें से कुछ का उल्लेख इन निदेशन बिन्दुओं में किया गया है, परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3. संविदाओं की किस्म और प्रकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मर्कों के या एक मुश्त कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के सम्मिश्र के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती हैं और बोलती लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी हुई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं।

इंजीनियरिंग, उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे नियतक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का ज्ञान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक होने और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने—

- (1) अभिदाय किए गए शेषों का एक बड़ा भाग पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे ग्याधिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्त्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन धाराएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है।

यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् कम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में सफा-साफ परिभाषित होना चाहिए।

माल की सप्साई के लिए संविदाओं में कीमतों को समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिमित कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर संपूर्ण किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए।

ये मार्ग दर्शन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा

सफल बोलतीकार द्वारा दी जाने वाली बीमों की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित अन्य आदेश जो भारतीय प्रायातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा।

"मैं (हम) एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शेषों का.....प्रतिशत %.....

(पात्र स्त्रोत देश) के राष्ट्रियों द्वारा रखा गया है, और..... प्रतिशत % निदेशक..... (पात्र स्त्रोत देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कंपनी..... (पात्र स्त्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिसके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टीकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जायगा।

4.2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मामकीकरण की एक डिग्री आवश्यकता है तो विशिष्टीकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल ब्राण्ड नाम, सूची, संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादकों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टीकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम से कम उन विशिष्टीकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें है।

4.3 गारंटी, निष्पादन बांड और रोक रखी गई धनराशि

सिविल कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अंतिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निविष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. झुकाई जाने वाली क्षति:

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्गो में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में झुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निविष्ट समय पर अथवा उससे पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने के लिए भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति:

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में, जब उचित हो, तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में धाराएं होनी चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी अपने वायित्वों को न पूरा करना उस ह्रासत में एक बूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी बूक विवश करने वाली स्थितियों में फॉर्स मेज्योर के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

7. झगड़ों का निपटारा:

झगड़ों के निपटारा से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में, 'समिति' की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या:

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा हस्तमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी में भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना मूल्यांकन और ठेका देन:

9.1. बोलियों के भ्रामंजन और उसको प्रस्तुत करने के बीच का समय की अन्तराल

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय बहुत दृढ़ तक संविदा के महत्व और पेकीबगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए 30 दिनों से कम की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिये तिथि, समय और स्थान की बोली भ्रामंजन में घोषणा की जानी चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोली जानी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्हें अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली को कुल धनराशि और यदि कोई वैकल्पिक बोलियां हों, तो उन्हें जोर से पढ़ा जाना चाहिए। और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बोली के मूल तत्त्व में कोई परिवर्तन लाए बिना ही केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के वास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रिया-विधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और संविदा दिए जाने पर से संबंधित सिकारियों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया-विधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है, तब तक कुछ नहीं बताया जाना चाहिए जब तक सकल बोलीकार के लिए संविदा निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता।

9.5 बोलियों की जीत

बोलियों के खोलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या बोलियों के परिकलन में कोई ठोस गलती तो नहीं हो गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यतः अग्रगण्य रूप से सही हैं, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उनमें अस्वीकृत शर्तें हैं, या अग्रगण्य रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया

जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिश्रण के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्ण योग्यताएं

पूर्ण योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास संवद्ध संविदा की प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं की पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणनीय गणितियों के लिए संयोजित बोली की कीमत के अनिश्चित अग्र्य भागों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य के तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानवृद्ध के अनुसार रूप-रैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि की विषय में नहीं लिया जाना चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें कीमत चुकाने का प्रस्ताव किया जाता है तो बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा की गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सकारात्मक छोट द्वारा प्रकाशित विषय वस्तु पर होगी चाहिए और जब तक संविदा प्रदान नहीं कर दी जाती हमसे पूर्व मुद्रा के मुद्दा में कोई परिवर्तन न किया जाए और और बोलियों चुनने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर वह लागू होनी चाहिए ऐसे मामलों में सकल बोलीकार की संविदा को अधिसूचित करने समय विनिमय की दर उपयोग में लाने जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकार करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन, बोलियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब-औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियों, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं हैं या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमं-खण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष स्थितियों में विधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए कम से कम बोली देने वाले किसी एक बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त

के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या अगली बोली को परिशोधन करने के लिए जिम्मेदारी ले।

अनुसूच 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रारंभ-पत्र

संख्या

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा निबंधक,

वित्त मंत्रालय

अधिक कार्य विभाग,

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रधान मंत्रालय,

पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:- येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत
जापान से का आयात।

सहोदय

उपर्युक्त येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन
..... से का आयात करने के सम्बन्ध में हम आपको
निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्तुत करने हैं जिनसे कि प्रात सम्बद्ध विदेशी संभरक
के नाम में साख पत्र खोलने के लिए को प्राधिकार
बैंक का नाम
जारी कर सकें और वह वहीं होता चाहिए जैसा कि नीचे (इ) में वर्णित
गया है :-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या वह सीधे कय या औपचारिक खुली
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है इसके मामले में यदि कोई
कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि
क्या संविदा का निर्णय उद्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर
किया गया है
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो, तो पात्र से हतर छोट देशों से आयातित संघटकों
का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि
(येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए
प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (ञ) विदेशी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक
- (ट) विदेशी संभरक का नाम और पता :-

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र छोट देशों के राष्ट्रिकों द्वारा किए गए शेषों
का प्रतिशत(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास
स्थान

- (4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।
- (5) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे;
- (6) संपूर्णता को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि;
- (7) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान विज्ञापित हुए);
- (8) पोटलदान अनुवेश (वाहतान्तरण/प्रांशिक लक्षन की अनुमति की गई है या नहीं निर्दिष्ट की जाए।
- (9) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता;
- (10) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां, तो ऐसी, प्रत्येक संविदा की संख्या दिनांक और मूल्य और विस्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आईसीएच को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध-4

(प्राधिकारपत्र का प्रपत्र)

संख्या एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(प्राधिकार कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय : येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) — ऋण करार संख्या आईडीपी-15 के अधीन आयात—साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करना।

प्रिय सहोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक 23-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न ब्योरा के अनुसार संबंधी के नाम में धनराशि जो येन से अधिक न हो के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी०एफ०, भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साख पत्र की शर्तों के अनुसार संभरकों को प्रारंभिक भुगतान आपको निधि में से किया जायगा। भुगतान के बाद ओ०ई०सी०एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेजकर, किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा आपको तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०ई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से बीच के समय के लिए आपको देय ब्याज प्रभार आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामास्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेख को प्रभावित

किए बिना निपटाया जाएगा। बैंक संबंधी अन्य खर्चें जिनमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव, और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं और वे भी जो पराक्रम्य दस्तावेजों के संभालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्च भी; विदेशी संभरक को ही देने पड़ेगे, अतः आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जायगा। क्रमशः और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरक से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी०एफ० से नहीं किया जाना है।

जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रति पूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में हम मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

यह प्राधिकार पत्र विदेशी संभरकों के नाम से साख पत्र खोलने के लिए है। हम मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोलने गए साख पत्र या आयाती तप, साख पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जायगा।

यह प्राधिकार पत्र—तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक—को उनके पत्र संख्या—
दिनांक—के संदर्भ में।

2. आयातक को बैंक—को। उनसे निवेदन है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा कराने की व्यवस्था करें। संभरकों की चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8—आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि/भारतीय बैंक को प्रतिपूर्ति करने की तिथि से सरकार के लेख में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिये सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सरकारी लेख में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान को किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेख में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों के मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, लीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या-184 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या-233 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं-74, आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या -103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की व्यवस्थाओं की और बिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसज-843-सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स

फार परचेजिस एटसेट्रा एथाइ परचेजिस अन्डर क्रेडिट लोन एप्रोमेन्ट लोन्स फ्राम् वि गवर्नमेन्ट आफ जापान 1.7 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-15 फार 1981-82”

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया सीम हजारों में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, वहाँ मूल की एक प्रति बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पण का पूर्ण विवरण देने हुए अभिवेध पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पत्र पर भेजी जाएगी :-

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
समस्त मार्ग, नई दिल्ली-110001.

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में तथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित किया जाता है उसकी सूचनाएँ उपयुक्त पत्र पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपय को पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रति पूर्ति की तिथि तक ओ ई सी एफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए जाने वाले ब्यौरा प्रभार अ.प के द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही निपटाए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग - 2 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, टेकूषसी म्यूटुअलिटी, 4-1, ओहटेमोमी 1-कोमे, चियोडा-क, टोकियो-100, जापान।

भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

(ओ० ई० सी० एफ० एल० सी-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख पत्र
(मास के लिए लागू)

दिनांक-----

सेवा में, ----- यह साख-पत्र (ऋणी) और
विदेशी आर्थिक सहयोगी निधि
के बीच हुए ऋण करार
सं०-----

(संभरक का नाम और पता) के दिनांक-----
के अनुसरण में जारी किया गया है।

अग्रिम महोदय,

हम आपको सूचित करने हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए आपके दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने आपके नाम में अपरिवर्तनीय साख पत्र सं०

----- खोल दिया है जो ----- येन (-----)
येन कह सकते हैं की कुल घन राशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित वस्तावेज के साथ भेजा जाना है :-

हस्ताक्षरित धाणिज्यिक बीजक

क्षीन आन बोर्ड, समुग्री पोत सादान बिल जिनमें दिए गए आवेशों का पूरा सेट हो, ब्लैक पण्डित एवं चिह्नित “फेंट” एवं “नोटिफाई” अन्य वस्तावेज, यदि कोई हो तो संविदा सं०-----का हवाला देने हुए, जिनमें-----से-----तक (साधान किए जाने वाले मास का संक्षिप्त विवरण) का सत्यापन किया गया हो। आंशिक पोतलदान स्वीकृत हैं। वाहान्तरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो -----के बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। परक्रामण के लिए डाफ्ट-----तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी डाफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकित होना चाहिए। “अपरिवर्तनीय साख पत्र सं०-----दिनांक-----19, के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएँ)----- (यदि कोई हो)

यह क्रेडिट हस्ताक्षरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशों की दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए तो यह क्रेडिट “यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार इकूमेन्ट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290” के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :-

1. उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाव हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी को धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक की यह बताते हुए हमें डाफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा-----को भेजे जाएँगे।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आगतक/संभरक के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(धाणिज्यिक बैंक)

द्वारा-----

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान शर्तें हमारे साखपत्र सं०-----का अधिन अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि-----येन जो कि कुल संविदा

मूल्य का-----प्रतिशत है।

अवशिष्ट दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि—येन

जो कि कुल संविदा मूल्य का—प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज:

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि—येन

संविदा ओ कुल मूल्य का—प्रतिशत है।

टिप्पणी:— पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है।

अनुबन्ध-6

प्रपत्र भो० ई० सी० एफ० एल० सी०-2

अपरिवर्तनीय साख-पत्र (सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में,

दिनांक
यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी
आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए
ऋण करार सं०.....
दिनांक..... के अनुसरण
में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आप को सूचित करते हैं कि विवरण पत्र के पूर्ण मूल्य के लिए हमको लिखे गए लाभग्राही के साइट ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध अधिकतम कुल धनराशि येन—के (अर्थात्—येन) के लिए—के लेखे के लिए आप के नाम में हमने भरता अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं०—खोल दिया है।

सम्बन्ध (परियोजना के सम्बन्ध में संविदा सं०—) ड्राफ्ट इससे संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अधिकतम—तक लेन-देन के लिए प्रस्तुत कर देने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर "अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं०— विनांक—के अन्तर्गत लिखे गए" शब्द होने चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तास्तरणीय नहीं है।

हम एक बार बचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अधीन और इसकी शर्तों के अनुपालन में हमारे नाम लिखे गए सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने पर उनका विधिवत भुगतान किया जाएगा।

जब तक अव्यथा लिखित रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार ड्राफ्टमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिबीजन) इन्टर नेशनल बैंकर ऑफ कामर्स पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

लेन-देन करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश:

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनीवीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण पत्र की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण पत्र के बजाए लाभग्राही के विवरण पत्र की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए बचन-बद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोगी निधि से

अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के साथ हम लेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्ट की धनराशि प्रेषित करने का बचन देने हैं।

3. उपर्युक्त मद् 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज को एक प्रति और ड्राफ्ट प्राप्त होते ही तुरन्त हमें भेजे जाएंगे।

4. इस क्रेडिट के अधीन बैंक के सभी खर्च आयातक/संभरक के नामे चाले जाएंगे।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र सं०—का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि—येन

कुल संविदा मूल्य का—प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज: लाभग्राही का विवरण पत्र

प्रस्तुत करने की अंतिम की तिथि:

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि येन—

कुल संविदा मूल्य का—प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :-

वेष धन राशि	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
पहली किश्त येन	
दूसरी किश्त येन	

अपेक्षित दस्तावेज: (ऋणी अथवा उसके मनीवीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

विनांक

संबन्ध सं०

सेवा में,

(संभरक का नाम और पता)

संबन्ध:— ऋण करार सं०—के अन्तर्गत—

परियोजना से संबंधित—

के नाम में—येन के लिए

द्वारा जारी किए गए साखपत्र सं०—

दिनांक—

(ऋणी) का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं, अधोहस्ताक्षरी—
और—के बीच हुई संविदा सं०—

दिनांक-----में निर्धारित भुगतान शर्तों के अनुसार विदेशी आर्थिक
सहायोग निधि से येन----- (येन मान)
की धनराशि प्राप्त करने के लिए-----को अधिकृत करने के लिए
एकद्वारा निष्पादन का विवरण पत्र जारी करता हूँ।

(-----)
(श्रेणी)

द्वारा-----
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेशः—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 13-ITC(PN)/82

New Delhi, the 12th March, 1982

Subject : Licensing Conditions for import of goods and services under the OECF Loan Agreement No. ID-P. 15 of Yen 1.7 Billion (Lower Borpani Hydroelectric Project of the Assam State Electricity Board).

Issued from file No. IPC/2323(27)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of goods and services under the OECF Loan Agreement No. ID-P. 15 of Yen 1.7 Billion for the implementation of the Lower Borpani Hydroelectric Project of the Assam State Electricity Board, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF YEN 1.7 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LOWER BORPANI HYDROELECTRIC PROJECT OF THE ASSAM STATE ELECTRICITY BOARD (ASEB) EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN.

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y. 1.7 billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Lower Borpani Hydroelectric Project of ASEB is unified in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import Licence(s) issued under this credit should not exceed Y 1,900 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the Import Licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the Import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. AD.P. 15". The first and

second suffix to the licence code will be "S/IC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to A.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of ASEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of ASEB more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 1,900 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by ASEB, be granted upto 31-3-83. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licensee on the overseas supplier duly signed by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of"

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1983.

Section II.—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

- (a) Invitation to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In case where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- (a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- (b) Where the number of qualified suppliers is limited.
- (c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- (d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- (i) Formal Selective International Tendering
- (ii) Informal International Competitive Procurement
- (iii) Direct Purchases from a single supplier.

As provided in Schedule 5 para 1(2) of the loan agreement No. ID-P. 15 dated 15-10-1981, A.S.E.B., should submit, in triplicate, copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposals for awards, and all other documents relevant to the bidding, to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will submit them to OECF for its review. It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after the above requirement has been complied with.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 15 for 1981-82 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100''$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of company) has been incorporated and registered in _____ (Name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 15 (Project Aid) for Lower Borpani Hydroelectric Project of ASEP and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 15 dated 15th October 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificate (triplicate in the forms indicated in II (vii).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV(i). Within the stipulated period of placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both A.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 15 (Project Aid) for Lower Borpani Hydroelectric Project of ASFB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, A.S.E.B. and the CAA and A will be informed of the same. Whereafter the ASEB should approach the Controller of Aid Accounts and Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-VI addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (Applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit or negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importers. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

Section VI—Responsibility for rupee deposit:—

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30

days and @ 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited along with the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted or computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-74 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI & E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and advances-843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements". Loan from the Government of Japan 1.7 Billion Yen Credit No. ID-P. 15 for Lower Borpani Hydroelectric Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated the 12th October, 1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract

VII (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 15 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports)

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to services.

ANNEXURE—1

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Development Countries and Territories

(a) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rept.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic

Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustachius, St. Martin (Southern part).

AMERICA, North & Central

(Continued)

- West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands

French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain

Turkey
Yugoslavia

- (1) Main Islands: Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main Islands: Monterrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Immal Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), the Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member of Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE—II

Main Guidelines for Procurement of Goods and Services under the Project Loan as formulated by O.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II. 1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II. 2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II. 3. Type and Size Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual cost are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (percentage) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (%) of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards

If nationals standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work. It should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.

IX.1 Time Interval between invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned

unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids

Following the opening it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may

negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE—III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No.

Date :

To

The Controller of Aid, Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub :—Import of.....from Japan under the
Yen Credit No.....(Project Aid).

Sir,

In connection with the import of ———— from ————
under the above mentioned Yen Credit No. ————
(Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the
(name of the Bank) which should be
the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas supplier :—
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.

- (a) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/ part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P. 15 issue of Letter of Authority for opening letter of credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen favouring M/s..... as per attached details.

A copy each of the Letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned importer's Bank in India through normal banking channels without affecting the Govt. of India's Account. The other Banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers Bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore, be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C of further fresh L/C against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto.....

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer.....with reference to their letter No.dated.....

2. Importers' Banker They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursement to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited in to the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN) 76 dated 16.6.76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC/(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24.10.1968, 132-ITC (PN)/71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC (PN)/74 dated 31.5.1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-deposits & advances-843-Civil Deposits-Deposit for Purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan agreements, Loans from the Government of Japan 1.7 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 15 for 1981-82.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo, for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic cooperation fund, Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE—V

Form OECF—LC I
Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date:

To This Letter of Credit has been
..... issued pursuant to Loan Agree-
ment No.
(Name and address of the dated
Supplier) between (Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC
COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y. (Say Yen) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in Full set of clean on board ocean bills of lading made but to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify Other documents."

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. (if any) from to Partial shipments are permitted. Transshipment is permitted.

Bills of lading must be dated not later than
Drafts must be presented for negotiation not later than
All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated and Import Reference No. (s) (if any)

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to
3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

.....
(a commercial bank)

By:
(Authorized Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

I. Initial Payment

Amount : Y
being % of the total
contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y
being % of the total
contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

III. Payment against Shipping documents

Amount : Y
being % of the total
contract price.

Note: This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—VI

Form OECF—LC II
Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

To Date:
..... This Letter of Credit has been
..... issued pursuant to Loan
..... Agreement No.
(Name and address of the dated
supplier) between (Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC
COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable Credit No. in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y. (Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to Project) Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated.

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No 290".

Special Instructions to the negotiating Bank:

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the documents as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By:
(Authorized Signature)**PAYMENT SCHEDULE**

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

I. Initial paymentAmount: Y
being% of the total contract price.

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date:

II. Progress PaymentAggregate amount: Y
being% of the total contract price to be paid as follows:

	Amount due	Latest presentation date
1st Instalment: Y
2nd Instalment: Y

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date:

Ref. No.

To

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No. dated
issued by
for y in favour
of concerning
Project under Loan Agreement No.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle to receive the sum of y. (Yen) only from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. dated between and

(Borrower)

By:
(Authorized Signature)**Special Instructions:**

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.